



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 1979/पौष 16, 1900

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 1979/PAUSA 16, 1900

इस भाग में मिलने वाले पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1979

New Delhi, the 6th January, 1978

अधिसूचना

NOTIFICATION

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

CENTRAL EXCISES

सं. का. नि. 19 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 55/75 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नीलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

G.S.R. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 55/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, मद 21 के पश्चात् निम्नीलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

In the Schedule annexed to the said notification, after item 21, the following item shall be inserted, namely :—

“22. ग्वार स्पलिट्स (वाल)”

“22. Guar splits”.

[सं. 11/79/फा. सं. 350/28/77-टी आर ए]

[No. 11/79/F. No. 350/28/77-TRU]

सा. का. नि. 20(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे समस्त माल को, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद सं. 68 के अधीन आता है और राज्य कारागारों में विनिर्मित किया जाता है उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “कारागार” पद से कौदियों के निरोध के लिए किसी राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से प्रयुक्त कोई जेल या स्थान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्न-लिखित भी हैं :—

- (1) कोई भी ऐसा स्थान, जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा उप जेल के रूप में घोषित किया है, और
- (2) कोई सुधारालय, बोस्टल संस्था या उसी प्रकार की अन्य संस्था।

[सं. 12/79/फा. सं. 350/121/78-टी आर यू]
जी. के. पिल्लै, अवर सीचव

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all goods falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and manufactured in prisons from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Explanation :—For the purposes of this notification, the expression “prison” means any jail or place used permanently or temporarily under the general or special orders of a State Government for the detention of prisoners and includes—

- (i) any place which has been declared by the State Government by general or special order, to be a subsidiary jail; and
- (ii) any reformatory, Borstal institution or other institution of a like nature.

[12/79/F. No. 350/121/78-TRU.]

G. K. PILLAI, Under Secy.